

(Formerly Vantage Corporate Services Ltd.)

502, Corporate Arena, D. P. Piramal Road Goregaon (West), Mumbai 400 104

> Telephone: +91 22 6783 0000 Email: info@anupamfinserv.com Website: www.anupamfinserv.com CIN: L74140MH1991PLC061715

Date: 01st July, 2021

To, **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalai Street,
Mumbai — 400 001

Script Code-530109 ISIN No: INE069BO1015

Sub: Submission of Newspaper Publication of the Financial Results

Dear Sir/Madam,

With reference to the subject, we herewith attach Newspaper advertisements of the Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2021 published in the Active Times and Mumbai Lakshdeep Daily newspaper on 30th June, 2021, pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For & on behalf of M/s. Anupam Finserv Limited

Pravin Gala Director DIN: 00786492

Mumbai, 01st July, 2021



PUBLIC NOTICE

wr Sunii Laxman wagne a member of Omka CHS Ltd, owner of Flat No. B/402, Omka CHS Ltd, Mitha Nagar, M G road, Goregaor West, Mumbai - 400104, died on 27/04/2021 n Mumbai without making any nomination The society hereby invites claims or objections from the heir/s or other claimant's or objector's to the transfer of the said shares and interes of the deceased member in the property of the society within a period of 18 days from the publication of this notice, with the copies of relevant proofs to support the claim objection. If no claims/objections are received within the period prescribed above, the society shall be at the liberty to deal with the share and interest of the deceased member in the nanner provided under the bye-laws. In case of any claims/objections kindly contact the managing committee in the society office within the prescribed 18 days. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/ objectors, i the office of the society/with the Secretary of the society between 4:00 P.M. to 6:00 P.M. every Tuesday and Thursday from the date of publication of the notice till the date or expiry of its period.

For and behalf of The Mithanaga Omkar CHS Ltd Place : Goregaon West. Hon Secretary Date: 30/06/2021

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that, MRS HANSABAI KHANDU UBALE, member of Ram Rahim Bldg. No.1 & 2 Co-Op. Hsg Society Ltd, having address at Bharti Park Off Mira Bhayander Road, Mira Road (E) Dist. Thane-401107 and holding Flat No 2/602 in the building of the society, died or 25.12.2018 without making nomination Now MRS. SUMAN HARI KAMBLE, sister in law of deceased member applied for 100% nembership of the society against the said flat who is already a member of our society along with deceased member.

That as per Bve Laws of the society hereb nvites claims or objections from the heir of neirs or other claimant or claimants phiectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased members in the capital/property of the society within period of 15 days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for transfer of share and nterest of the deceased members in the capital/property of the society. If no claims objections are received within the period rescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the leceased member in the capital/property c the society in such manner as is provided under the bye-laws of the society. Objectors shall give their written objection and contact Secretary/Chairman of the society or the indersigned from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.

Saroj B Sharma (Advocate High Court) B/07, Jai Poonam Nagar CHS Ltd, Near Deepak Hospital, Mira Bhayander Ro Bhayander (E) Thane 401105

Date: 29/06/202

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the general public

at large that my dients are intending to develop the property more particularly described and mentioned in the Schedule hereunder written from its owners, SHIVMAHAL CHS LTD. (hereinafter referred to as the said 'Owner'). Any person or persons claiming any right title, interest or claim in the said propert for any part thereof by way of sale, exchange mortgage, lease, gift, trust, inheritance, bequest, lien, easement, succession or otherwise in any manner howsoever is / are hereby required to communicate the same in writing along with documentary evidence to support their Idaim to the undersigned at the address mentioned below, within seven (7) days from date of publication of this notice as otherwise the sale of the said right, title and interest in respect of the property mentioned hereunder shall be completed without any reference or regard to any such claim or interest, which shall be deemed to have been waived and/or abandoned with notice and such claim/s will not be enforceable / binding on the purchasers and the title of the owners shall be treated

as clear and marketable. THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO: All undivided right, share and interest in all that pieces or parcels of land and ground totally admeasuring approximately 1106.10sq.ml as per property card, bearing C.T.S No.3, 3/1 to 3/9 Survey No.88, Hissa No. 12of Village Malad (North), Taluka - Borivali, Iving and situated at Mathuradas Road, Kandivali West, Mumbai-400067 known as Shivmahal CHS

Ltd. and Bounded as under: On or towards East : CTS, No. 4 On or towards West : CTS, No. 2 On or towards North : CTS, No. 1172

On or towards South: Mathuradas Road

Adv. Joe Eappen, Legal Fortis. Advocates & Solicitors,

Office No. 8, BMC Retail Market, Opp.

Phoenix Hospital, Chikoo Wadi, Off New Link Road, Borivali (West), Mumbai-400092. Place: Mumbai Date: 30.06.2021

PUBLIC NOTICE

Public Notice hereby given that MRS MEENABEN DINESHBHAI PANCHAL owner of Flat No. 6 (admeasuring 260 sq.fts carpet area) on the Ground Floor i A-wing of Shree Yogi Darshan Makwan Nagar Co.Op. Hsg. Soc. Ltd., situated a Mahadevbhai Desai Road, Carter Road No. 3, Borivali East, Mumbai- 400066 lying on plot of land bearing C.T.S. No. 314 being at Village: Kanheri, Taluka: Boriva in the Registration District and Sub-District of Mumbai City and Mumbai Suburba nave intend to sell/ transfer the said Flat t my client

MRS. MEENABEN DINESHBHAI PANCHAL represented me that she had ost or misplace following Original.

a) Allotment Letter Dated 10th April 1969 issued by SHREE YOGI DARSHAI
MAKWANA NAGAR CO.OP. HSG SOC. LTD., in the name of SMT VIDYABAHEN R. GANDHI. Agreement Dated 18th day of

October,1975 entered into and SAROJBEN B. JOSHI. MEENABEI

DINESHBHAI PANCHAL have lodge missing complaint with concerned polic station bearing Complaint No. 1166/202 Date: 28/06/2021

All persons having any claim in respect of the said Flat or any part by way of sale exchange, mortgage, charges, gift, trus monument, inheritance, possession lease, lien or otherwise, howsoever are hereby requested to make the sam known in writing to the undersigned hered with documentary evidences within 15 days of the notice, failing which the clair of such persons if any will deemed to have peen waived and / or abandoned and the

transaction will be completed. Sd/- MR. G. V. SHIRODKAF Advocate High Cour 1, Kotu Singh Chawl, Near Roya Garden Building Kasturba X Rd. No. 2 Borivli East, Mumbai- 400 06

PUBLIC NOTICE

This is for notice of the general public that the political party by the name of <u>UNITED</u> CONGRESS PARTY (Name of the Party with headquarters at 201/202,2nd Floor Sukumar Corner, 127- J. P. Road Dawood Baug Lane , Andheri (West) Mumbai, Maharashtra - 400058.(give full address of party office),registered with the Election Commission, proposes to Change its name to <u>UTTAR BHARTIYA</u> VIKAS SENA If anyone has any objection to the proposed new name they may send their objection with reasons thereof to the Secretary (Political Party), Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road New Delhi- 110001 withir 30 days of the Publication.

PUBLIC NOTICE

MR. KISAN @ KRISHNAKUMAR PRAGJI PATEL a joint Member of the Matru-Krupa Kunj Co-operative Housing Society Ltd., having, address a Near Amba Mata Mandir, Kasturba Cros Road No. 3, Borivali East, Mumba 400066 and jointly holding Flat No. **B/30**8 n the 03rd Floor in the building of the ociety, died on 30/04/2019 withou making any nomination.

The society hereby invites claims objections from the heir or heirs or other claimants/ objector or objectors to the ransfer of the said shares and interest of e deceased member in the capita roperty of the society within a period of 15 (Fifteen) days from the publication his notice, with copies of such document and other proofs in support of his/her/the claims/ objections for transfer of share and interest of the deceased member he capital/ property of the society. If r laims/ objections are received within the period prescribed above, the society sha be free to deal with the shares and interes of the deceased member in the capita property of the society in such manner as s provided under the bye-laws of th ociety. The claims/ objections, if any eceived by the society for transfer of shares and interest of the decease nember in the capital/ property of the ociety shall be dealt with in the manne rovided under the bye-laws of the ociety. A copy of the registered bye-law of the society is available for inspection b the claimants/ objectors, in the office of the society/ with the secretary of th For and on behalf of

Matru-Krupa Kunj Co-op. Hsg. Soc. Ltd Sd/- Hon. Secretary Place: Borivli - Mumbai Dt: 30/06/202

PUBLIC NOTICE otice is hereby given that my client Shri. Prasad Shyamman eshpande, the owner of the Shop No.9, on the ground floor Shree Somnath Co-Operative Housing Society Limited ituated at Veer Savarkar Road, Dombivali (East) Villag vagaon, Taluka Kalvan & Dist, Thane, (here referred to Said Shop") the said shop had purchased from Mrs. Jyo rakash Chaphekar & Mr. Prakash Narhari Chaphekar by sistered Agreement dated 13/01/2004. hat the Mrs. Jyoti Prakash Chaphekar & Mr. Prakash Narha

haphekar had purchased the said Shop No.9 from Mr arilal Waghela by a registered Agreement for sale dated 8/04/1997 and Mr. Harilal Waghela had purchased the said from Mis. Mukesh Developers the promoters by a greement for sale dated 19/05/1988. he original Agreement for sale dated 19/05/1988 in the nam

of Mr. Harilal Waghela and the original Registration Receipt in name of Mrs. Jyoti Prakash Chaphekar issued by Sut Registrar Kalyan-3 dated 22/04/1997 document No 52/1997 the both the mentioned documents has been lost of isplaced and same could not be traceable inspite of m lient, my client lodged online missing complaint or 6/03/2021 under registered Sr. No. 31318 in Dombiva police Station. My client is the present owner of said shop and applied for

y clients also present toward or said Shop an applied for ordragge loan and provides the said Shop as security to the ordgage loan to the Bandhan Bank.

nerefore this notice invites claim or objection from any arsons, relative, and representative claimants in respect o o.9. situated in the society known as Shree Somnath CH

e claimants are hereby requested to write to undersign y Regd. Post with A.D at the address given below about the suing this Notice, failing which my client will enter in A.R. DUBE Date: 29/06/2021

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificate No 63, Distinctive Nos 226 to 230 of The Prasanna Co-operative Housing Society Ltd (Regd. No. B-2668 of 1959) .situated at 29/31 Nesbit Road, Mazagaon, Mumbai - 400 010 in the name Mr. Savio Kale has been reported lost/ misplaced and an application has been made by him to the society for issue of duplicate share certificate.

The Society hereby invites claims or objection (in writing) for issuance of duplicate share certificate within the period of 14 (fourteen days from the publication of this notice. If no claims/ objections are received during this period the society shall be free to issue duplicate share certificate Place · Mumbai

Date: 30/6/2021 For & on behalf of The Prasanna Co-operative Housing

(Hon. Secretary)

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the general public

at large that my clients are intending to develop the property more particularly described and mentioned in the Schedule hereunder written. from its owner, KALPANITA CHS LTD. (hereinafter referred to as the said 'Owner'), Any person or persons claiming any right title, interest or claim in the said property or any part thereof by way of sale, exchange mortgage, lease, gift, trust, inheritance, bequest, lien, easement, succession or otherwise in any manner howsoever is / are hereby required to communicate the same in writing along with documentary evidence to support their claim to the undersigned at the address mentioned below, within seven (7) days from date of publication of this notice as otherwise the sale of the said right, title and interest in respect of the property mentioned hereunder shall be completed without any reference or regard to any such claim or interest, which shall be deemed to have been waived and/or abandoned with notice and such claim/s will not be enforceable / binding on the purchasers

as clear and marketable, THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO: All undivided right, share and interest in all that pieces or parcels of land and ground totally admeasuring approximately 210.50sq.mt. as per property card, bearing C.T.S No.75, Survey No. 161/A, Hissa No. 1of Village Malad (South), Taluka - Borivali, lying and situated at Liberty Garden Road No.1, Malad West Mumbai- 400064.known as Kalpanita CHS Ltd. and Bounded as under:

and the title of the owners shall be treated

On or towards East : CTS. No. 74 On or towards West: CTS. No. 76 On or towards North: By Municipal Road On or towards South: CTS, No. 71

Adv. Joe Eappen, Legal Fortis, Advocates & Solicitors.

Office No. 8, BMC Retail Market, Opp. Phoenix Hospital, Chikoo Wadi, Off New Link Road, Borivali (West), Mumbai-400092. Date: 30.06.2021 Place: Mumbai

PUBLIC NOTICE

This is notice is given Public at large by my client **Shri. Abhishek Krishna** Kadam, who at present is i possession of Flat No. B-602, lying and situated at Teak Wood Co-O Housing Society Limited, Swapr Nagari, Vasant Garden, Mulund Colony, Mulund (West), Mumbai : 400

Originally, the aforesaid Societ issued Share Certificate bearing no. 64 of five fully paid shares from 316 to 320 inclusive of both in the name of m client's late Uncle Panduran Gangaram Kadam, Thereafter, th said society transferred the said shar certificate in name of my client. My client intends to take business loa

and therefore on verge of mortgagin the said flat with Bank / NBFC's Therefore, my client gives this notic to public at large that if anyone has an claim, right, title, interest, gift, lien mortgage, and or any kind of encumbrance with regard to the said Flat, then the claimer shall raise the objections alongwith legitimate document within 15 days from the date of notice with the undersigned.

Waguar Ahmad & Advocates for Abhisekh Kadam Add: 43/45, Raja Bahadur Building 2nd Floor, Office No. 14-D Tamarind Lane, Mumbai : 400 023 Mobile No. : 9867476176 / 9821478730 Email Id : jack120283@yahoo.com

To

advertise

in this

Section

Call:

Manoj Gandhi

9820639237

ANUPAM FINSERV LIMITED

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for Quarter and Year ended

(CIN - L74140MH1991PLC061715) Reg Off: 502, Corporate Arena, DP Piramal Road, Goregaon West, Mumbai 400104 Tel: 67830020 Email: info@anupamfinserv.com Website: www.anupamfinserv.com

31st March, 2021						
			(Rs.	In Lacs)		
Particulars		Quarter ended 31/12/2020 (Unaudited)	Year ended 31/03/2021 (Unaudited)	Year ended 31/03/2020 (Unaudited)		
Total Revenue from operations (net)	78.48	105.66	285.07	218.88		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	34.07	80.16	170.30	74.30		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	34.07	80.16	170.30	74.30		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	34.08	59.94	126.64	63.78		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	34.08	59.94	126.64	63.78		
Equity Share Capital			1,051.25	1,051.25		
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
Basic:	0.32	0.57	1.20	0.61		
Diluted:	0.32	0.57	1.20	0.61		

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website and on the website

Place: Mumbai

Date: 28th June 2021

By order of the Boar Director & CFO

TRANSGLOBE FOODS LIMITED

Shop No.603/604, Bldg No.3-115 Scheme on Plot 1427 Sai Janak Classic Devidas Lane Borivali (West) Mumbai - 400103. CIN: L15400MH1986PLC255807 Email Id: transglobefoods.com Phone No. 8097095677

Extract of the Standalone Audited Financial Results For the Quarter & Year ended 31st March 2021. (₹ In lacs)							
_	the Quarter & Y					(₹ In lacs)	
١.			Quarter Ende	d	Year I	Ended	
Sr.	Particulare	31-03-2021	31-12-2020	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	
No.		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	0.06	-	13.00	16.56	18.45	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,						
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3.22)	(3.03)	8.94	(2.54)	1.39	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax						
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3.22)	(3.03)	8.94	(2.54)	1.39	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax						
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1.04)	(3.03)	25.93	(1.91)	18.38	
5	Total Comprehensive Income for the period						
	[Comprising Profit / (Loss) for the period						
	(after tax) and Other Comprehensive						
	Income (after tax)]	(1.04)	(3.03)	25.93	(1.91)	18.38	
6	Equity Share Capital	42.13	42.13	42.13	42.13	42.13	
/	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						
	as shown in the Audited Balance Sheet			(44.05)	(40.00)	(44.05)	
_	of the previous year.	-	-	(41.05)	(42.96)	(41.05)	
8	Earnings Per Share						
	(for continuing and discontinued operations) -	(0.70)	(2.00)	4.00	(4.22)	4.00	
	1. Basic:	(0.72)	(2.09)	1.83	(1.32)	1.30	
	2. Diluted:	(0.72)	(2.09)	1.83	(1.32)	1.30	

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity viz www.bseindia.com and www.transglobefoods.com.

For TRANSGLOBE FOODS LIMITED

Prabhakarbhai Khakkhar Managing Director - DIN 06491642

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Mr. Lalitkuma Nanalal Jain is bonafide member of th Nanaial Jain is bonande member of tr Hazari Baug Co-Op Housing Societ Limited, having address at Station Road Vikhroli West, Mumbai - 400083. at 1) Smt III I ASHBAI NANAI AI IAII & 2) SÚRESHKUMAR NANALAL JAIN ha

That 1) Smt. ULLASHBAI NANALAL JAIN had purchased the Flat No G - 1 on the First Floor having Share Certificate no. 90 (Distinctive No. 446 to 450) from M/S MANISH CORPORATION in joint ownership and after demise of Smt. Ullashbai Nanalal Jain, all her legal heirs released their right in favour of Mr. Sureshkumar Nanalal Jain by executing release deed with Sub-Registrar of Assurances at KURLA-2 Vide Registration No. KRL2-3542-2017. Further Mr. Sureshkumar Nanalal Jain gifted his 100% share of the said flat to his brother Mr. Lalitkumar Nanalal Jain by executing Gift Deed duly registered with office of the Sub Registration No. KRL3/10356/2020 making him the 100% owner of the flat Mr. Lalitkumar Nanalal Jain si willing to sell and dispose off the premises in the name of 1) Smt. Kamla Bharatsinh Jadeja & 3) Mrs. Rita

Nitesh Jadeja.

Any person/s, legal heirs etc., having any claim, objection or rights, title, interest etc of whatsoever nature in the said flat shal intimate to the undersigned with necessary supporting documentary evidence within 15 days from the publication hereof, thereafter my client shall complete the formalities of sale of the aforesaid Flat, without considering claims if any received after expiry of the saic notice.

Nitesh Bharatsinh Jadeja & 3) Mrs. Rita

ottice
Dated this 30th day of June, 2021

Narendra R Singh
Advocate High Court,
C-1101, Blooming Heights,
Pacific Enclave, Powai, Mumbai-400076

PUBLIC NOTICE

Smt. Alka Vinayak Kulkarni a membei

of Salasar Tower Co-Op. Hsg. Soc. naving address at Flat No. 604, Salasar Tower, Phatak Rd., Near Nagar Bhawan, Bhayandar West, 401 101 holding Flat No. 604 on 6th floor of Society Bldg died on 6th April 2020, making her husband Shri Vinavak Pandurang Kulkarni as first Nominee The society hereby invite claims or objection from the heir/ heirs or other claimants/ objections to the transfer of her shares and interest of the deceased member in the capital property of the society within a period of 15 days from the date of publication of this notice with documentary evidence and proof to the secretary of society

f no claim/ objection is received during the period, the society shall be free to transfer the above share to the first nominee (husband) Shri Vinayak Pandurang Kulkarni. For and on behalf of

Salasar Tower Co-Op Hsg. Soc. Ltd. Nandu Poddar (Hon. Secretary)

Date: 30.06.2021 Place: Bhayandar West

Registered Office: TJSB House Plot No. B5, Road No. 2, Wagle Industrial Estate, Thane (West)-400 604. Tel.: 2587 8500 | Fax: 2587 8504

TJSB SAHAKARI BANK LTD. MULTI-STATE SCHEDULED BANK

PUBLIC AUCTION

TJSB Sahakari Bank Ltd. has initiated recovery action against the following defaulted borrower by the Authorized Officer of the Bank appointed under, the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 as amended by the Enforcement of Security Interest & Recovery of Debts Laws (Amendment Act) Act, 2012 (1 of 2013) dtd. 03.01.2013 and rule made there under has issued **Demand Notice on 22.11.2019** under section 13(2) of the said Act to Mr. Ashtamkar Suryakant Moreshwar. The Borrower has not repaid the amount of Rs. 1,05,79,516.44 as on 31.10.2019 with further interest from 01.11.2019 mentioned in the said Demand Notice within stipulated period; hence the Authorized Officer has taken the Actual possession of the immovable property mentioned herein below u/s 13(4) of the said Act.

I, the undersigned as the Authorized Officer of TJSB Sahakari Bank Ltd., decided to sale the said property on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" by inviting Tenders.

The Borrower attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured

Name of the Borrower / Guarantors / Mortgagor	Description of Immovable Property
I. Mr. Suryakant Moreshwar Ashtamkar Borrower & Mortgagor & Guaranto Add : 4, S. No. 318, Shankar Nagar, Pen, Dist Raigad. Proprietary firm, Proprietor : 2. M/s. Suryakant Suvarnakar	(New Survey No. 505) Area 213.00 Sq. Meters and Plot No. 11 of Survey No. 318, Hissa No. 1A, 1B, 1C Area 215.60 Sq. Meters and construction thereon Shankar Nagar, situated within the limits of District & Division Raigad, Taluka & Sub-Division Pen, Municipal Council Pen, Taluka & Sub-Division Pen, District & Division Raigad within the Jurisdiction of Sub Registrar Pen, Dist Raigad within the local limits of Municipal Council Pen, Dist Raigad.
M/s. Supriya Silver Borrowe (Prop.of Mrs. Ashtamkar Suruchi Suryakant) Guaranto Add : Morya Residency, Gavdevi Mandir, Nea Railway Station, New Panvel.	,
3. Mr. Manoj Gajanan PotdarGuaranto Add: Block No.301, Varad Society, Hanuman Ali Pen, Dist- Raigad.	11
4. Mr. Rupesh Dwarkanath VedakGuaranto Add: Sunita Niwas, Near Goteshwar Mandir Shivaji Path, Pen, Dist - Raigad - 402 107.	1
Place of Auction: TJSB Sahakari Bank Ltd., Pen Branch. Shashinil.	Reserve price : Rs. 1,01,03,000/- (Inclusive of Charges)
	Earnest Money Deposit (EMD) :
Opp. S.T. Stand, Ground Floor, Near Urdu Shala, Chinchpada, Pen - 402 107	Rs. 10,00,000/-

Terms & conditions :

Date of Inspection of property

 The offers along with EMD should be made in a sealed cover super scribed, "Offer for purchase of Immovable property of Mr. Ashtamkar Suryakant Moreshwar bring the said offer sealed cover at the above

mentioned venue on or before 15.07.2021 before 5:00 p.m. 2. Offers so received by the undersigned will be opened and considered on 16.07.2021 at the above mentioned venue for at 12:00 Noon or there after convenient of Authorized Officer & auction schedule The undersigned reserves his right to accept or reject any offer and to

cancel, amend and / or postpone the Auction. 4. Tender forms will be separately available with the terms and conditions document which is available with office of Authorized Officer

(Contact No. 8108163934/ 8422011118/ 022-25838594/ 532/ 588) 5. The Auction will be finalized by the Bank only. The Bank doesn't authorize any other person or agency for the said Auction.

This Publication is also 15th days notice to the Borrower/ Guarantors

Date: 30/06/2021. Place: Thane.

(AUTHORISED OFFICER) Under SARFAESI Act, 2002 For & on behalf of TJSB Sahakari Bank Ltd

between 11:30 a.m. To 5:00 p.m.

PRIVA I IMITED Fiya CIN: L99999MH1986PLC040713 Regd. office: 4th Floor, Kimatrai Building, 77-79, Maharshi Karve Marg, Marine Lines (East), Mumbai-400 002.Tel.: 022-4220 3100, Fax.: 022-4220 3197

	website: www.priyagroup.com; E-mail : cs@priyagroup.com							
	EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 (Rs. In Lacs except EPS)							
Sr.	Particulars	Q	uarter ende	d	Year E	nded		
No.	Particulars		31.12.2020 (Unaudited)		31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)		
1	Total income from operations	18.76	10.86	17.39	51.43	534.11		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(113.43)	(141.58)	(1358.65)	(546.84)	(3938.57)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(113.43)	(141.58)	(1358.65)	(546.84)	(3938.57)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(118.89)	(141.58)	(1390.49)	(552.30)	(3968.73)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13.87	(3.48)	(14.35)	30.67	(84.51)		
6	Equity Share Capital	300.23	300.23	300.23	300.23	300.23		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	_		-				
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)							
	Basic/Diluted EPS	(3.96)	(4.72)	(46.31)	(18.40)	(132.19)		

Date: 29.06.2021

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the guarter and year ended 31st March. 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.priyagroup.com).
- The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29 June, 2021 Corresponding figures of the perious quarter/ year have been regrouped, recasted and reclassified to

make them comparable wherever necessary. For and on behalf of the Board of Directors Aditva Bhuwania

Whole-time Directo

DIN: 00018911

SATYAM CO-OP. HOUSING SOCIETY LTD.

Regd. No. WR / HSG / TC / 9433 / 96-97 Dt.27.9.96 Link Road, Opp. MHB Post Office, Near Jayraj Nagar, Borivali (W), Mumbai - 400 091.

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to Public at large that, the deceased Mr. Mulchand Virji Dand, was joint member along with his wife Mrs. Hansa Mulchand Dand of Satvam Co-opeartive Housing Society Ltd., having address at Flat No. C/413, New Link Road, MHB Police Station, Borivali (West), Mumbai - 400091, and holding jointly Flat No. C-413, bearing Share Certificate No.121 bearing distinctive nos. from 471 to 475 in the building of the society, died on 12/09/1995 without making any nomination, Mrs. Hansa Mulchand Dand, Mr. Nilesh Mulchand Dand and Mrs. Shilpa Nitin Mayekar (nee Shilpa Mulchand Dand) are claiming to be the only legal heirs of said Late Mr. Mulchand Virii Dand, Mr. Nilesh Mulchand Dand and Mrs. Shilpa Nitin Mayekar (nee Shilpa Mulchand Dand) desirous to execute Deed of Release in favour of their mother Mrs. Hansa Mulchand Dand.

The society hereby invites claims or objections from the heir/heirs or other claimants objector or objectors to the transfer / release of the said 50% shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society within a period of 15 days from the publication of this notice, with certified true copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society. If no claims / objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased in the capital/property of society in such manner as is provided under the bye-laws of the society. The claims or objections, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of he society. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/objectors, in the office of the society/with the Secretary of the society between 12 noon to 2 P.M. from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.

For and on behalf of The Satyam Co-op. Housing Society Ltd.

Place: Borivali / Mumbai Sd/

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE SHREE SAI CHINTAMANI CO-OP. HSG. SOC. LTD Add :- Survey No. 253, Hissa No. Part, CTS No. 1314 To 1324, Vishnu Nagar, Near Navagaon. Dombivli (W), Tal. Kalyan, Dist. Thane-421202

Has applied to this office under section 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of Construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 for declaration of Deemed Conveyance of the following property. The next hearing is kept on - 15/07/2021 at 4:00 p.m. Respondents - M/s. Shree Enterprises, Proptiter Jaywant V. Mhatre, Dombivli (W), Banubai Balaram Patil, Rajesh Balaram Patil, Janabai Namdev More, Namdev Sukor More, Nilesh Namdev More, Paresh Namdev More, Vaibhav Namdev More, Vaishali Namdev More, Dombivli (W) and those who have interest in the said property may submit their written say at the time of hearing in the office mention at below address. Failure to submit any say it shall be presumed that nobody has any objection and further action will no take.

Due to present Covid-19 pandemic situation, you may submit written say on Email Id - ddr.tna20@gmail.com

Description of the property-Mauje:- Navagaon, Tal.: Kalyan, Dist: Thane

Survey No.	Hissa No.	Plot No.	Area
253	Part	C.T.S No. 1314 To 1324	783.50 Sq. Mtrs
ffice of Dietrict D	r		

Co-op Societies, Thane First floor, Gaondevi Vegatable SEAL Market, Thane (W), Dist - Thane Pin Code :- 400 602.

Competent Authority & District Dy

Tel :- 022 25331486. Registrar Co.Op. Societies, Thane Date: 29/06/2021

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE SAI DEEP COMPLEX CO-OP. HSG. SOC. LTD Add :- 2nd Rabodi, Shivaji Nagar, Tal. & Dist. Thane (W) 400 601

Has applied to this office under section 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of Construction, Sale, Managemen and Transfer) Act, 1963 for declaration of Deemed Conveyance of the following property. The next hearing is kept on - 15/07/2021 at

Respondents - M/S. Sandeep Construction, Smt. Babibai Laxman Patil, Lalita Laxman Patil, Pramila Laxman Patil, Ratnaprabha Laxman Patil, Sangeeta Laxman Patil and those who have interest in the said property may submit their written say at the time of hearing in the office mention at below address. Failure to submit any say it shall be presumed that nobody has any objection and further action will no take.

Due to present Covid-19 pandemic situation, you may submit written say on Email Id - ddr.tna@gmail.com, ddr.tna20@gmail.com

Description of the property-Mauje:- Majiwada, Tal : Thane, Dist: Thane

Old Survey No.	New Survey No.	Hissa No.	Plot No.	Area				
-	59	2	2 - 1214.00 S					
Office of District Deputy Pogistrar								

Co-op Societies, Thane First floor, Gaondevi Vegatable Market, Thane (W), Dist - Thane Pin Code :- 400 602,

Date: 29/06/2021

Survey No.

SEAL Sd/-Competent Authority & District Dy Tel: - 022 25331486. Registrar Co.Op. Societies, Thane

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE SHIV SHRUSTI CO-OP. HSG. SOC. LTD. Add :- 2nd Rabodi, Shivaji Nagar, Tal. & Dist. Thane (W) 400 601

Has applied to this office under section 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of Construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 for declaration of Deemed Conveyance of the following property. The next hearing is kept on - 19/07/2021 at 12:00 p.m.

Respondents - M/s. D. M. Telange, Smt. Babibai Laxman Patil, Lalita Laxman Patil, Pramila Laxman Patil, Ratnaprabha Laxman Patil Sangeeta Laxman Patil and those who have interest in the said property may submit their written say at the time of hearing in the office mention at below address. Failure to submit any say it shall be presumed that nobody has any objection and further action will no take.

Due to present Covid-19 pandemic situation, you may submit written say on Email Id - ddr.tna@gmail.com, ddr.tna20@gmail.com

Description of the property-Mauje:- Majiwada, Tal : Thane, Dist: Thane

Hissa No. Plot No.

59	2	-	425.00 Sq. Mtrs
Office of District De Co-op Societies, T			

First floor, Gaondevi Vegatable SEAL Market, Thane (W), Dist - Thane Pin Code :- 400 602, Competent Authority & District Dy. Tel: - 022 25331486. Date: 29/06/2021

Registrar Co.Op. Societies, Than DHENU BUIL DCON INFRA I IMITED

Sd/-

Office No. 4 Building No. 4, Vahatuk Nagar, Amboli, Andheri (West), Mumbai- 400 058 Contact No.: 7977599535 CIN: L10100MH1909PLC000300 Email: dhenubuildcon@gmail.com Website: www.dhenubuildconinfra.com EXTRACT FROM THE STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

	(Rupees in Lakins except EPS)							
PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2021 Audited	Quarter Ended 31.03.2020 Audited	Year ended 31.03.2021 Audited	Year ended 31.03.2020 Audited				
1 Total Income from Operations (net) 2 Net Profit/ (Loss) for the period	0.00	0.00	0.00	0.00				
(before tax and Exceptional items) Net Profit/ (Loss) for the period	(109.03)	(2.10)	(133.17)	(116.75)				
before tax, (after Exceptional items) 3 Net Profit/ (Loss) for the period after	(109.03)	(2.10)	(133.17)	(116.75)				
tax (after Exceptional items) 4 Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	(74.66)	28.26	(98.80)	(86.40)				
Comprehensive Income (after tax)] 5 Equity Share Capital (Face Value	(68.67)	28.26	(76.18)	0.80				
of Shares : Rs. 1/-) 6 Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)	183.00	183.00	183.00	183.00				
(a) Basic (b) Diluted	(0.41) (0.41)	0.15 0.15	(0.54) (0.54)	(0.47) (0.47)				

THE QUARTER AND YEAR ENDED 31/03/2021

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the year ended 31st March 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format is available on the website of Stock Exchange
- i.e BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.dhenubuildconinfra.com The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th June, 2021.

For Dhenu Buildcon Infra Limite Vikas Maharish

Place: Mumbai Director & CFO

ANUPAM FINSERV LIMITED

(CIN - L74140MH1991PLC061715) Reg Off: 502, Corporate Arena, DP Piramal Road, Goregaon West, Mumbai 400104 Tel: 67830020 Email: info@anupamfinserv.com Website: www.anupamfinserv.com

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for Quarter and Year ended (Rs. In Lacs) Particulars Total Revenue from operations (net) 78.48 105.66 285.07 218.88 Net Profit / (Loss) for the period pefore Tax, Exceptional and/or Extraordinary ite Net Profit / (Loss) for the period before tax 80.16 170.30 74.30 (after Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period after tax 34.08 126.64 63.78 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 59.94 Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Earnings Per Share (of Rs. 10/- each

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly. Financial Results are available on the Stock Exchange website and on the website of the Company www.anupamfinserv.com

Date: 30th June, 2021 Pravin Gala Director & CFO

ट्रान्सन्लोब फुडस् लिमिटेड दुकान क्र.६०३/६०४, इमारत क्र.३-१९५ स्किम, प्लॉट क्र.१४२७, साई जनक क्लासिक देविदास लेन, बोरिवली (पश्चिम), पुंबई-४००१०३. सीआवएन:एल१५४००एमएच१९८६पीएलसी२५५८०७, दूर.:८०९७०९५६७७ ई-मेल:transglobefoods@gmail.com, वेबसाईट:www.transglobefoods.com ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाही व वर्षाकरीता एकमेव लेखापरिक्षीत वित्तीय निष्कर्षाचा अहवाल

			संपलेली तिमाही		संपलेले वर्ष		
अ.	तपशील	३१.०३.२०२१	39.97.7070	39.03.7070	३१.०३.२०२१	39.03.7070	
क्र.		लेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	
۶.	कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	0.0६	-	१३.00	१६.५६	१८.४५	
٦.	कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)(कर,						
	अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबपूर्व#)	(३.२२)	(\$.0\$)	८.९४	(२.५४)	१.३९	
₹.	करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)						
	(अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबपूर्व#)	(३.२२)	(\$.0\$)	८.९४	(२.५४)	१.३९	
٧.	करानंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)						
	(अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबनंतर#)	(१.0४)	(\$.0\$)	२५.९३	(१.९१)	१८.३८	
ч.	कालावधीकरिता एकूण सर्वकष उत्पन्न						
	(कालावधीकरिता सर्वंकष नफा/(तोटा)						
	(करानंतर) आणि इतर सर्वंकष उत्पन्न (करानंतर))	(१.0४)	(\$.0\$)	२५.९३	(१.९१)	१८.३८	
ξ.	समभाग भांडवल	४२.१३	४२.१३	४२.१३	४२.१३	४२.१३	
6 .	राखीव (पुनर्मूल्यांकित राखीव वगळून) मागील						
	वर्षाच्या लेखापरिक्षित ताळेबंद पत्रकात दिल्याप्रमाणे	-	-	(४१.०५)	(४२.९६)	(४१.0५)	
८.	उत्पन्न प्रतिभाग (अखंडीत व खंडीत कार्यचलनाकरिता)						
	१. मूळ	(0.63)	(२.०९)	१.८३	(१.३२)	१.३0	
	२. सौमिकृत	(9.0)	(२.०९)	१.८३	(१.३२)	१.३0	

टिफ सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्रायरोंट्स) रेप्युलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सकेंजसह सादर करण्यात आरेली त्रैमासिक व वार्षिक वित्तीय निष्कर्षांचे सविस्तर नमुन्यातील उतारा आहे. त्रैमासिक व वार्षिक वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण नमुना स्टॉक एक्सकेंजच्या आणि सूचिबध्द संस्थेच्या www.bseindia.com व कंपनीच्या www.transglobefoods.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे ट्रान्सग्लोब फुडस लिमिटेडक

ठिकाण: मुंबई दिनांक: २८.०६.२०२९

प्रभाकरभाई खक्कर डीआयएन:०६४९१६४२

तिलक व्हेन्चर्स लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९१०एमएच१९८०पीएलसी०२३००० नोंदणीकृत कार्यालय: ई/१०९, क्रिस्टल प्लाझा, न्यु लिंक रोड, इन्फिनीटी मॉल समोर, अंधेरी (पश्चिम), मंबई-४०००५३, महाराष्ट्र, भारत. ई-मेल:tilakfin@gmail.com, वेबसाईट:www.tilakfinance.com

३१ मार्च, २०२१ रोजी संपर्लल्या तिमाही व वर्षोकरिता लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचा अहवाल (रु.लाखात) संपर्लली तिमाही संपर्लली तिमाही संपर्लले वर्ष तपशील ३१.०३.२०२१ ३१.०३.२०२१				
			(रु.लाखात)	
	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेले वर्ष	
तपशील	1 , , , , , ,	1 11 1 1		
	लेखापरिक्षीत	लेखापरिक्षीत	लेखापरिक्षीत	
कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	२४.६४३	१६५८.७७६	४८२.१५१	
कर व अपवादात्मक बाबपुर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)	₹30.05	-६१.४२८	१२४.२९९	
कर व अपवादात्मक बाबपुर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)	₹0.0८३	-६१.४३0	१२४.२९९	
कर व अपवादात्मक बाबनंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा	३२.२७९	–६६.६५६	१३६.४९४	
कालावधीकरिता इतर सर्वंकष उत्पन्न	88.868	-१०३.३७३	१७०.७४०	
भरणा केलेले समभाग भांडवल	१२८४.८००	१२८४.८००	१२८४.८००	
उत्पन्न प्रतिभाग				
मूळ	0.0२५	-0.0५२	०.१०६	
सौमिकृत	0.0२५	-0.0५२	0.१०६	

टीपः सेबी (लिस्टिंग ॲण्ड अदर डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजसह सादर करण्यात आलेली त्रैमासिक व वार्षिक लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचे सर्विस्तर नमुन्यातील उतारा आहे. वित्तीय निष्कर्षाचे संपूर्ण नमुना कंपनीच्या www.tilakfinance.com वेबसाईटवर आणि बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे तिलक व्हेन्चर्स लिमिटेडकरित

> सही/ गिरराज किशोर अगरवाल

ठिकाण: मुंबई दिनांक: २८.०६.२०२१

दिनांक : २८.०६.२०२१

संचालव डीआयएन:00२९०९५९

फिरचर केमिक लिमिटेड

सीआयएन:एल२४२३९एमएच१९९३पीएलसी२८८३७१ १०४, १ला मजला, रघुलीला मेघा मॉल, पोईसर आगाराच्या मागे, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई–४०००६७. द्रर.:८६५५५५०२०९, ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाही व वर्षाकरीता लेखापरिक्षीत एकमेव वित्तीय निष्कर्षाचा अहवाल

			संपलेली तिमाही		संपलेले वर्ष		
अ.	तपशील	३१.०३.२०२१	38.82.2020	३१.०३.२०२०	३१.०३.२०२१	38.03.2020	
क्र.		लेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	
۶.	कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	-	-	१२.४५	१६.५०	१८.३९	
٦.	कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)(कर,						
	अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबपूर्व#)	(५.६०)	(५.३८)	હ.१५	(३.५६)	(४.१०)	
₹.	करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)						
	(अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबपूर्व#)	(५.६०)	(५.३८)	હ.१५	(३.५६)	(४.१०)	
٧.	करानंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)						
	(अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबनंतर#)	(१.९२)	(५.३८)	હ. १५	१४.०६	(४.१०)	
ч.	कालावधीकरिता एकूण सर्वकष उत्पन्न						
	(कालावधीकरिता सर्वंकष नफा/(तोटा)						
	(करानंतर) आणि इतर सर्वंकष उत्पन्न (करानंतर))	(१.९२)	(५.३८)	હ. १५	१४.०६	(४.१०)	
ξ.	समभाग भांडवल	१७.२०	१७.२०	१७.२०	१७.२०	१७.२०	
O.	राखीव (पुनर्मूल्यांकित राखीव वगळून) मागील						
	वर्षाच्या लेखापरिक्षित ताळेबंद पत्रकात दिल्याप्रमाणे	-	-	-	(१६.८९)	(३०.९५)	
८.	उत्पन्न प्रतिभाग (अखंडीत व खंडीत कार्यचलनाकरिता)						
	१. मूळ	(१.१२)	(\$.१३)	४.१६	८.१८	(२.३९)	
	२. सौमिकृत	(१.१२)	(\$.१३)	४.१६	۷.٩٧	(२.३९)	

टिप: सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेप्यलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजसह सादर करण्यात आलेर्ल त्रमासिक व वार्षिक वित्तीय निष्कर्षांचे सविस्तर नमुन्यातील उतारा आहे. त्रैमासिक व वार्षिक वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण नमुना स्टॉक एक्सचेंजच्या आणि

सूचिबध्द संस्थेच्या www.bseindia.com व कंपनीच्या www.fischerchemic.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे फिरुचर केमिक लिमिटेड धारव चेतन दानी

क्लिओ इन्फोटेक लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ९०१-९०२, ९वा मजला, ॲटलांटा सेंटर, उद्योग भवन समोर, सोनावाला रोड, गोरेगाव (पुर्व), मुंबई. ्दूर::०२२-४३२११८६१, फॅक्स:९१-२२-४३२११८६१, ई-मेल:clio_infotech@yahoo.com, वेबसाइटः www.clioinfotech.com, सीआयएनःएल६५९९०एमएच१९९२पीएलसी०६७४५० ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाही व वर्षाकरिता लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचा अहवाल

	(रु.लाखात, ईपीएस व्यतिरिक्त)				
तपशील	संपलेली तिमाही ३१.०३.२०२१ लेखापरिक्षित	संपलेली तिमाही ३१.०३.२०२० लेखापरिक्षित	संपलेले वर्ष ३१.०३.२०२१ लेखापरिक्षित	संपलेले वर्ष ३१.०३.२०२० लेखापरिक्षित	
कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	0.63	8.9८	98.८८	१८.५२	
कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादात्मक बाब आणि विशेष साधारण बाबपुर्व)	-99.23	-92.30	-84.4६	-49.00	
करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाब आणि विशेष साधारण बाबनंतर)	-99.49	-92.30	-84.68	-49.00	
करानंतर कालावधीकरिता नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाब आणि विशेष साधारण बाबनंतर)	-9.50	-92.36	-88.02	-49.60	
कालावधीकरिता एकूण सर्वंकष उत्पन्न (कालावधीकरिता एकत्रित नफा/(तोटा) (करानंतर) व इतर सर्वंकष					
उत्पन्न (करानंतर)	-9.83	-92.80	-83.98	-49.68	
भरणा केलेले समभाग भांडवल (दर्शनी रु.१०/- प्रत्येकी)	9909.90	9909.90	9909.90	9909.90	
राखीव (पुनर्मुल्यांकित राखीव वगळून)		२४.३९			
उत्पन्न प्रतिभाग (वार्षिकीकरण नाही)					
अ. मूळ व सौमिकृत (विशेष साधारण बाबपुर्व)	-0.09	-0.99	-0.80	-0.80	
ब. मूळ व सौमिकृत (विशेष साधारण बाबनंतर)	-0.09	-0.99	-0.80	-0.80	

दिनांक : २९.०६.२०२१

ठिकाण: मुंबई

सेबी (लिस्टिंग ॲण्ड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) सह सादर करण्यात आलेली त्रैमासिक लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचे सविस्तर नमुन्यातील उतार . आहे. वित्तीय निष्कर्षाचे संपूर्ण नमुना खालील वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

१. बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com २. कंपनीच्या www.clioinfotech.com

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वरे क्लिओ इन्फोटेक लिमिटेडकरिता सही / -

व्यवस्थापकीय संचालक (डीआयएन:०८४२६९७४)

सुरेश बाफन व्यवस्थापकीय संचालक डीआयएन:०१५६९१६३

रोज वाचा दै. मुंबई लक्षदीप'

Registered & Corporate Office: Aries House, Plot No. 24, Deonar, Govandi (E), Mumbai - 400 043

aries agro limited CIN: L99999MH1969PLC014465

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER								AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021				
AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 ₹in lakhs (Except EPS)										₹in lakhs (Except EPS)	
	Consolidated Financial Results					Standalone Financial Results			Consolidated		Standalone	
		Quarter Ended			Quarter Ended			Year Ended		Year Ended		
	PARTICULARS	31-Mar-21	31-Dec-20	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Dec-20	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Mar-20	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(AUDITED)	(UN-AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(UN-AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	
1	Income from Operations	8,838.45	13,183.20	7,101.09	8,838.45	13,181.88	7,101.09	47,451.15	37,150.08	47,449.83	37,150.08	
	Less :- Discounts / Rebates	1,931.05	2,478.98	1,549.18	1,931.05	2,478.98	1,549.18	9,304.18	7,535.63	9,304.18	7,535.63	
	Net Income from Operations	6,907.39	10,704.22	5,551.91	6,907.39	10,702.90	5,551.91	38,146.97	29,614.46	38,145.65	29,614.46	
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before Tax,											
	Exceptional and/or Extraordinary Items)	(697.15)	681.29	(1,067.21)	(550.96)	813.23	(956.43)	2,461.44	1,611.85	3,008.19	2,308.80	
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before Tax											
	(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(697.15)	681.29	(1,067.21)	(550.96)	813.23	(956.43)	2,461.44	1,611.85	3,008.19	2,308.80	
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after Tax											
	(after Exceptional and/or Extraordinary Items)											
	- (Owners Share)	(449.18)	471.63	(1,032.18)	(318.28)	583.25	(934.05)	1,795.71	974.24	2,263.91	1,561.07	
5	Total Comprehensive Income for the period											
	{Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)											
	and Other Comprehensive Income (after tax)}											
	- (Owners Share)	(426.81)	473.04	(1,094.03)	(299.77)	583.21	(975.33)	1,774.56	885.58	2,235.37	1,498.00	
6	Equity Share Capital											
	(Equity Share of Rs. 10/- Each)	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown											
	in the Audited Balance Sheet of the previous year	19,755.73	18,121.40	18,121.40	17,752.14	15,516.77	15,516.77	19,755.73	18,121.40	17,752.14	15,516.77	
8	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
	(for continuing & discontinued operations)											
	(of Rs.10/-each) (not annualised) :											
	a) Basic	(3.45)	3.63	(7.94)	(2.45)	4.49	(7.18)	13.81	7.49	17.41	12.00	
	b) Diluted	(3.45)	3.63	(7.94)	(2.45)	4.49	(7.18)	13.81	7.49	17.41	12.00	

	b) Diluted		(3.45)	3.63	(7.94)	
	tes for the Quarter and Year Ende		larch, 2021	:-		
1.	Statement of Assets and Liabilit			01 1		
		Year	olidated Year	Standa Year		
	PARTICULARS	Ended	Ended	Ended	Year Ended	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	
		AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	
A.	Assets					4
	Non Current Assets					
	(a) Property , Plant and equipments	4,796.10	4,135.66	4,796.10	4,135.66	
	(b) Right of Use Asset	673.93	637.87	629.10	637.87	
	(c) Capital work - in - progress	1,283.53	1,211.48	1,220.79	1,211.48	
	(b) Intangible assets	17.00	22.54	17.00	22.54	
	(d) Financial Assets					
	(i) Non-Current Investments	5,684.95	5,943.23	2,028.04	2,028.04	
		12,455.51	11,950.79	8,691.03	8,035.59	
	Current Assets					
	(a) Inventaries	14,074.87	13,803.07	14,074.87	13,803.07	
	(b) Financial Assets					
	(i) Trade Receivables	12,307.84	11,627.43	10,892.85	10,158.67	
	(ii) Cash and cash equivalents	68.74	77.13	43.92	48.07	
	(iii) Bank Balance other than cash					
	and cash equivalents	341.18	330.07	341.18	330.07	
	(iv)Currrent Loans	6.51	11.84	10,127.13	9,946.74	
	(v) Othre currrent financial assets	9.10	11.24	9.10	11.24	
	(c) Other current assets	10,825.01	10,899.23	3,369.92	3,113.12	
		37,633.24	36,760.01	38,858.98	37,410.98	
	Total Assets	50,088.75	48,710.80	47,550.00	45,446.58	
B.	EQUITY AND LIABILITIES					
(1)	Equity					
	(a) Equity share capital	1,300.43	1,300.43	1,300.43	1,300.43	
	(b) Other equity	19,755.73	18,121.40	17,752.14		
		21,056.16	19,421.84	19,052.57	16,817.20	В
(2)	Non-Controlling Interest	702.30	882.81	-	-	
	Non- current liabilites					
	(a) Financial Liabitlites					
	Non Current Borrowings	1,215.35	1,433.88	1,215.35	1,433.88	
	Othe Non-Current Liabilities	327.19	421.13	287.14	421.13	
	(b) Non Current Provisions	315.91	290.62	308.13	283.24	
	(c)Deferred tax Liabilities (net)	527.99	426.15	527.99	426.15	
		2,386.44	2,571.78	2,338.62	2,564.40	
	Current Liabilities					
	(a) Financial Liabilities					
	(i) Current Borrowings	11,566.33	13,055.07	11,559.30	13,048.99	c
	(ii) (a) Trade Payables - Total					
	outstanding dues of Micro &					
	Small Enterprises	676.42	1,053.55	672.77	1,053.55	
	(b) Trade Payables - Total					
	outstanding dues of Creditors					
	other than Micro & Small					
	Enterprises	4,556.60	4,791.35	4,550.94	4,784.24	
	(iii) Other current financial liabilities	1,207.99	932.91	1,202.57	932.91	

7,737.66

113.11

85.73

25,943.84

3.63	(7.94)		(2.45)	4.49	(7.18)	13.81	7.49	17.41	12.00	
:-		;	2. Staten	nent of Cash	Flows					
01 1								0, 11		
Standalone							olidated	Standa		
Year	Year		PARTICULARS			Year	Year	Year	Year	
Ended	Ended					Ended	Ended	Ended	Ended	
31-03-2021	31-03-2020					31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	
AUDITED	AUDITED					AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	
		A	•	LOW FROM	DPERATING					
			ACTIVI	TIES						
4,796.10	4,135.66		Net Pro	fit before tax a	s per Statement					
629.10	637.87		of Profit	and Loss		2,461.44	1,611.85	3,008.19	2,308.80	
			Adjuste	ed for :						
1,220.79	1,211.48		Depreci	ation & Amortis	sation Expense	644.36	536.44	638.15	536.44	
17.00	22.54		Loss on	Sale of Assets	s (net)	(2.22)	256.29	(2.22)	96.91	
			Effect of	f Exchange Ra	te change	23.12	(30.43)	-	-	
2,028.04	2,028.04		Interest	Income		(11.80)	(15.37)	(508.26)	(507.46)	
8,691.03	8,035.59		Provisio	n for Employe	es Terminal					
0,031.03	0,033.33		Benefits	3		-	0.64	_	-	
			Adjustm	nent on Adoptio	on of IFRS 16	0.36	_	_	_	
14,074.87	13,803.07		•	Share of Loss of Associate Remeasurements of Defined Benefit Plans			87.97	_	_	
10,892.85	10,158.67						(84.28)	(24.53)	(84.28)	
43.92	48.07		Finance	Costs		(24.53) 2,596.35	2,552.11	2,593.22	2,552.11	
40.52	40.07			ng Profit before	Working	,000.00	2,002.11	2,000.22	2,002.11	
			-	Changes	, , , or king	5,764.56	4,915.21	5,704.56	4,902.53	
341.18	330.07		Adjuste	•		3,704.30	7,010.21	J, 1 U-4.JU	7,502.55	
10,127.13	9,946.74		•	se) / Decrease	in Trade					
9.10	11.24		Receiva	•	III IIaue	(690.41)	(70.81)	(724.10)	(226.47)	
3,369.92	3,113.12				. Inventorios	(680.41)	` ′	(734.19)		
-			•	se)/Decrease ir		(271.80)	(824.39)	(271.80)	(824.39)	
38,858.98	37,410.98			,	Trade Payables	(611.88)	699.06	(614.08)	705.10	
47,550.00	45,446.58			,	in Provisions &	0.005.00	4 054 70	0.000.40	4 070 00	
				urrent Liabilitie		2,235.38	1,851.70	2,222.49	1,873.08	
				enerated from		6,435.85	6,570.77	6,306.99	6,429.85	
1,300.43	1,300.43				received (Net)	(646.45)	(686.49)	(646.45)	(686.49)	
	· .			sh Flow from (Operating					
17,752.14	15,516.77	l	Activitie			5,789.40	5,884.28	5,660.54	5,743.36	
19,052.57	16,817.20	B)		LOW FROM I	NVESTING					
-	-		ACTIVI							
				se of Fixed Ass						
				e Fixed Assets	s, Capital work					
1,215.35	1,433.88			ess (WIP))		(1,446.80)	(1,351.20)	(1,333.02)	(1,351.20)	
	1			ds from Sale of		16.65	23.96	16.65	22.89	
287.14	421.13			Subsidy receiv		25.00	-	25.00	-	
308.13	283.24		Investm	ents in Long To	erm Investments	(77.48)	(87.97)	-	(1.00)	
527.99	426.15		Moveme	ent in Short Tei	rm Loans and					
2,338.62	2,564.40		Advance	es & Other Ass	ets	70.58	(2,712.96)	(446.16)	(1,571.98)	
,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Interest	Income		11.80	15.37	508.26	507.46	
			Net Cas	sh Flow from /	(used in)					
			Investir	ng Activities (В)	(1,400.24)	(4,112.80)	(1,229.27)	(2,393.83)	
11,559.30	13,048.99	(C)) CASH F	LOW FROM F	INANCING					
			ACTIVI	TIES:						
			Dividen	d Paid		-	(299.12)	-	(299.12)	
672.77	1,053.55		Tax on [Dividend paid		-	(61.48)	-	(61.48)	
0.2	1,000.00		Non Cu	rrent Borrowing	gs (Net)	(218.52)	106.94	(218.52)	106.94	
			Current	Borrowings (N	Net)	(1,488.74)	242.46	(1,489.68)	(1,329.31)	
			Finance	Costs	•	(2,596.35)	(2,552.11)	(2,593.22)	(2,552.11)	
			Increase	e/(Decrease) in l	Lease Liabilities	(93.94)	421.13	(134.00)	421.13	
4,550.94	4,784.24			. ,	rom financing	' '				
1,202.57	932.91		Activitie		J	(4,397.56)	(2,142.19)	(4,435.42)	(3,713.96)	
7,974.39	5,863.57			ease in Cash	and Cash	,	, ,	, , ,		
			Equivale			(8.40)	(370.71)	(4.15)	(364.43)	
113.11	141.85		•	g Balance of C	ash and Cash		\ \ \	()	(* * * * * * * * *	
85.73	239.87		Equivale	=		77.13	447.84	48.07	412.50	
26,158.81	26,064.98		•	Balance of Ca	sh and Cash			.5.57		
47,550.00	45,446.58		Equivale			68.74	77.13	43.92	48.07	
		∟ d+i\v			nder regulation					
						SOULTIESE				

Total Equity and Liabilites 50,088.75 48,710.80 **47,550.00** 45,446.5 The above is an extract of the detailed format of Audited Quarterly Financial Results fi Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and

The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Ind AS) Rules, 2015 and subsequent amendments

As the Company's business activity falls within a single primary business segment, the disclosure requirements of Accounting Standard (Ind AS-108) "Operating Segments", are not applicable. Since the Company's business relates to Micronutrient Fertilizers, Plant Nutrient Solutions etc. the same is impacted by cropping pattern, seasonality and erratic weather conditions

across the Globe in general and India in particular. The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and there upon approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 29th

June, 2021 These Results have been audited by the Statutory Auditors of the Company. The Audit Report does not contain any qualification.

5,619.77

141.85

239.87

25,834.37

9 The Audited Standalone / Consolidated financial results are for the Quarter and Year ended 31st March, 2021. 10 The Consolidated Audited Financial Results have been prepared in accordance with Ind AS 110" Consolidated Financial Statements"

11 Figures for the quarter ended 31st March, 2021 and 31st March, 2020 represents the difference between audited figures in respect of the full financial year and the published figures of nine months ended 31st December, 2020 and 31st December, 2019 respectively.

12 With reference to Para 4.3 of the Circular SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2018/144 dated 26.11.2018, we wish to state that we are not a LARGE CORPORATE within the meaning of Para 2.2(ii) of the aforesaid Circular.

13 As the Company falls under Essential Services Category, due to nature of industry / product line, there was no impact of Covid-19 on the business of the Company in FY 2020-21.

However with the spread of Covid in rural India during the 2nd wave in FY 2021-22, we continue to monitor and shall report on any impact going forward.

14 The Company has adopted Ind AS 116, effective Annual Reporting period beginning 1st April, 2019 and applied the Standard to its Leases prospectively which impacted Depreciation. 15 The Board has recommended a Dividend of Rs. 0.80 (8%) per Fully Paid Up Equity Share of Rs. 10/- each for the Financial Year 2020-21.

16 The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post employment received Indian Parliament approval and Presidential assent in

September, 2020. The Code has been published in the Gazette of India and subsequently 13th November, 2020 draft rules were published and invited for Stakeholders's suggestions. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

17 Previous Period's / Year's figures have been re-grouped / re-arranged wherever necessary to correspond with the Current Period's figures. 18 The above results will be made available at the Company's Website at www.ariesagro.com on or after 30th June, 2021. For Aries Agro Limited

For Aries Agro Limited

Dr. Rahul Mirchandani **Chairman & Managing Director** DIN: 00239057

Place : Mumbai Date: 29th June, 2021

(b) Other current liabilities

(d) Current Tax Liability (Net)

(c) Current provisions